

Street play on 'swacch Bharat Abhiyan'
SHYAM LAL COLLEGE
UNIVERSITY OF DELHI
Consumer Mela (20-10-2016)

The Department of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India organized Consumer Mela on 20th October, 2016, during the Swachhta Pakhwada, at Central Park, Connaught Place, New Delhi for consumer awareness and possible grievance redressal. NSS unit of Shyam Lal College participated in Consumer Mela. A team of 15 students of our college performs a street play named "Swacch Bharat Abhiyaan". The motive behind such conglomeration was to bring the consumers and companies face to face so as to resolve the grievances to the extent possible and to make the consumers aware about their responsibility towards Swachhta.

Consumer Mela was inaugurated by the Union Minister for Food and Consumer Affairs, Shri Ram Vilas Paswan. Industry Associations -FICCI, ASSOCHAM, CII, PHD CEMBER and DICCI as well as sector regulators like TRAI, FSSAI, BIS participated in the event. Apart from National Consumer Helpline, BIS, FSSAI, NTH, NCDRC, Weights and Measures, reputed private companies also participated in the Mela.

Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food and PD announced to organize Consumer Awareness Weeks and Consumer Melas across the country every year beginning from World Consumer Rights Day. This will help in bringing Consumers, Companies, Regulators on one platform for consumer awareness and their grievance redressals. During the Consumer Mela, the Minister administered Swachhta Oath and appealed to the people to keep their surroundings clean. Nukkad Nataks on consumer awareness, Swachhta, and Poster making competition for School children were also organized during the event.



उपभोक्ता मामले विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार

उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह

20-27 अक्टूबर, 2016

एवं

स्वच्छता पखवाड़ा

16-31 अक्टूबर, 2016

का

उपभोक्ता मेला

20 अक्टूबर, 2016

के मुकाम पर

श्री राम विलास पासवान

केन्द्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

के कार सम्मले द्वारा

श्री सी.आर. चौधरी

उप मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

की संयोजकता में आयोजित है।

स्थान: सेंट्रल पार्क, कान्हाट प्लेस, नई दिल्ली

समय: 11:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक

हमेशा याद रखें

मुद्रास्वतः किन्तु जैसे कि
आईएसआई मार्क,
एचएसई, होमवैशुअल
ब्रांडिंग से पहले देखें।



हरिया एकजवरी मुद्रा,
एकसमयकी तिथि,
ब्रान्ड, फाक सामग्य
खरीदने से पहले देखें
एवं खरीद के बाद त्रिज
अच्छा लें।

किताबों के पैसे से
किताबें खरीदें।



एक जागरूक
उपभोक्ता ही
सिम्बल उपभोक्ता है।

For any help/correction or consumer
issues, call: **1800-11-4000**

आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं
www.consumerhelpline.gov.in

विशेषतः
www.consumeraffairs.nic.in

For any
@jaggrahakjago

मन की बात
हमारे लिए हमें आपकी बातें सुननी हैं।
आपकी बातें हमें सुननी हैं। हमें आपकी बातें सुननी हैं।

इसके लिए हमें आपकी बातें सुननी हैं।
1922 पर एक निम्न कॉल है
से www.mygov.in पर भीतर करें।

my
GOV



Department of Consumer Affairs

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Government of India

is Organising

Consumer Awareness Week

20 - 27 October, 2016

&

Swachhta Pakhawada

16 - 31 October, 2016

Launch at

CONSUMER MELA

20th October, 2016

by

Shri Ram Vilas Paswan

Union Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

in the august presence of

Shri C. R. Chaudhary

Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution

at

Central Park, Connaught Place, New Delhi-110001

Time: 11:00 AM - 07:00 PM

Always Remember

Always check
Quality marks
such as ISI mark,
Agmark, Hallmark
before buying



Before purchase check
MRP, Expiry Date,
Weight & Quantify
and insist on bill of
your purchase

Pay for the
SWEETS.
Not for the BOX



An Aware
Consumer is a
responsible
Consumer

For any help/correction or consumer
issues, call: **1800-11-4000**

You can log your complaints at
www.consumerhelpline.gov.in

Website:
www.consumeraffairs.nic.in

For any
@jaggrahakjago

ANY IDEAS & SUGGESTIONS FOR
MANN KI BAAT

YOUR FEEDBACK WILL BE SHARED BY THE PM WITH THE GOVERNMENT

SHARE YOUR
IDEAS ON THE ANKERINDIA MANN KI
BAAT APP THROUGH A MISSED CALL ON 1922
OR LOGIN TO WWW.MYGOV.IN

my
GOV

